

AA-1175
(050) B. Sc. PART-I (BIO-GROUP)
Term End Examination, 2021-22
ZOOLOGY
(Paper-II)

Time : Three hours]**[Maximum Marks : 50**

नोट— सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। अपने उत्तरों में उचित नामांकित चित्रों का प्रयोग कीजिए।

Note: Attempt all five questions. All questions carry equal marks. Use well labelled diagrams in your answers.

इकाई-I/ Unit-I

- 1.** बैलेनोग्लोसस के सामान्य लक्षण एवं बंधुता का सचित्र वर्णन कीजिए। **10**

Describe the general characters and affinities of balanoglossus with suitable diagrams.

अथवा/OR

वर्ग सरीसृप के सामान्य लक्षण एवं वर्गीकरण आर्डर तक कीजिए।

Describe the salient features and classification of class reptalia upto order.

इकाई-II/ Unit-II

- 2.** मछलियों में प्रवास का वर्णन कीजिए। **10**

Discuss the migration in fishes. Give an account of migration in fishes.

अथवा/OR

किन्हीं दो का संक्षिप्त में उत्तर लिखिए—

- (i) मछलियों में शल्क
- (ii) विष उपकरण
- (iii) एम्फीबिया में पैतृक रक्षण

Briefly answer any two of the following :

- (i) Scales in fishes
- (ii) Poisonous apparatus
- (iii) Parental care in Amphibia

इकाई-III/ Unit-III

- 3.** जलीय स्तनधारियों और उनका अनुकूलन पर एक निबंध लिखिए। **10**

Write an essay on aquatic mammals and their adaptation.

अथवा/OR

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए—

- (i) यूथीरिया
- (ii) पर्चिंग
- (iii) पक्षियों में प्रवास

Write short notes on any two of the following :

4. युग्मकजनन प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए।

10

Describe the process of gametogenesis with diagrams.

अथवा/OR

किन्हीं दो का संक्षिप्त में उत्तर दीजिए—

- (i) विदलन
 - (ii) शुक्राणु की संरचना
 - (iii) स्पर्मियोजेनेसिस

Write short notes on any two of the following :

- (i) Cleavage
 - (ii) Structure of sperm
 - (iii) Spermiogenesis

ઇકાઈ-V/ Unit-V

5. चूजे में तीन जनन स्तरों के निर्माण तक भ्रूणीय विकास का वर्णन कीजिए।

10

Describe the development of chick up to formation of three germ layers.

अथवा/OR

संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए—

- (i) अपरान्यास
 - (ii) बाह्य भूणीय झिल्लियाँ

Write short notes on:

- (i) Placentation
 - (ii) Extra embryonic membranes.